

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, पन्ना (म.प्र.)

प्रगति प्रतिवेदन

1. कार्यक्षेत्र :

बैंक का कार्यक्षेत्र संपूर्ण पन्ना राजस्व जिला होकर जिले की 09 तहसील एवं पॉचो विकासखण्ड पर बैंक की शाखाएं स्थापित हैं। जिले में कुल ग्रामों की संख्या 1019 हैं। जिले की जनसंख्या 11.90 लाख हैं। कृषि जोतों की संख्या 207485 में से 152075 सदस्य सहकारिता की परिधि में लाये जा चुके हैं। शेष कृषक परिवारों को भी योजनाबद्ध प्रयास किये जाकर सहकारिता के क्षेत्र में लाने हेतु 10 शाखाओं से सम्बद्ध 88 सेवा सह. समितियों के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है।

2. सदस्यता :

क्र.	विवरण	31.03.21	31.03.22	31.03.23	31.03.24	31.03.25	30.06.25
1.	प्राथमिक कृषि साख सह. समितियाँ	84	84	84	84	84	84
2.	आदिम जाति सह. समितियाँ	4	4	4	4	4	4
3.	विपणन एवं प्रक्रिया सह. समितियाँ	2	2	2	2	2	2
4.	बुनकर सह. समितियाँ	0	0	0	0	0	0
5.	सहकारी उपभोक्ता भण्डार	3	3	3	3	3	3
6.	अन्य सहकारी समितियाँ	12	12	12	12	12	12
7.	व्यक्तिगत सदस्य (नाम मात्र)	275	275	275	275	275	275
8.	राज्य शासन	1	1	1	1	1	1
	योग	381	381	381	381	381	381

3. अंशपूँजी :

(राशि लाखों में)

क्र.	अंशधारी	31.03.21	31.03.22	31.03.23	31.03.24	31.03.25	30.06.25
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	सहकारी समितियाँ	1245.26	1270.21	1333.50	1427.61	1492.40	1492.40
2.	राज्य शासन	427.97	427.97	427.97	427.97	427.97	427.97
3.	व्यक्तिगत (नाम मात्र)	0.20	0.20	0.21	0.21	0.21	0.21
4.	आई.सी.डी.पी.	180	250.71	206.32	206.33	161.94	117.55
	योग	1853.43	1949.09	1968.00	2062.12	2082.52	2038.13

4. कोष एवं निधियाँ :

(राशि लाखों में)

क्र.	विवरण	31.03.21	31.03.22	31.03.23	31.03.24	31.03.25	30.06.25
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	रक्षित कोष	405.35	408.26	408.26	408.26	408.26	408.26
2.	संदिग्ध एवं डूबंत एवं कालातीत ब्याज कोष	4314.64	5014.64	5914.64	5914.64	5914.64	5914.64
3.	कृषि साख स्थाई निधि	260.05	269.65	277.74	286.07	294.66	294.66
4.	अन्य कोष	1172.20	1207.89	1207.89	1254.37	1938.44	1575.06
	योग	6152.24	6900.44	7808.53	7863.34	8556.00	8192.62



5. अमानते :

(राशि लाखों में)

क्र.	विवरण	31.03.21	31.03.22	31.03.23	31.03.24	31.03.25	30.06.25
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	सावधि अमानतें	7329.98	8250.65	8128.73	9406.50	10192.18	10245.40
2.	बचत अमानतें	13678.42	13275.98	13414.88	12844.63	13712.59	14882.28
3.	चालू अमानतें	939.40	818.50	760.57	775.16	782.49	938.55
4.	अन्य अमानतें	6.76	4.66	4.66	4.66	4.66	4.66
	योग	21954.56	22349.79	22308.84	23030.95	24691.92	26070.90

6. ऋण ग्रहण :

(राशि लाखों में)

क्र.	विवरण	31.03.21	31.03.22	31.03.23	31.03.24	31.03.25	30.06.25
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अल्पावधि ऋण	1372.61	2429.46	2718.08	1500.00	3060.47	1995.00
2.	मध्यावधि ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	दीर्घकालीन ऋण	0.00	115.10	98.66	82.22	65.77	65.77
	योग	1372.61	2544.56	2816.74	1582.22	3121.77	2060.77

7. विनियोजन :

(राशि लाखों में)

क्र.	विवरण	31.03.21	31.03.22	31.03.23	31.03.24	31.03.25	30.06.25
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अंश शीर्षस्थ बैंक	362.15	362.15	362.15	362.15	362.15	362.15
2.	अंश इफको कृषको एवं अन्य सहकारी संस्थाएँ	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
3.	रक्षित निधि शीर्ष बैंक	31.89	30.3	35.7	38.09	40.73	40.73
4.	सावधि निक्षेप शीर्ष बैंक	1225	1275	975	940.67	941.69	2041.98
5.	सावधि निक्षेप अन्य बैंक	75.57	83.9	92.46	97.94	97.94	97.94
6.	शासकीय प्रतिभूतियाँ -						
I.	राज्य शासन की दिनांकित प्रतिभूतियाँ	4999.69	5490.84	4846.16	4159.30	5402.68	5753.00
II.	ट्रेजरी बिल	497.44	0	0	1460.83	2516.04	980.46
	योग	7206.74	7257.19	6326.47	7073.97	9376.23	9291.26



8. कार्यशील पूँजी

(राशि लाखों में)

क्र.	विवरण	31.03.20	31.03.21	31.03.22	31.03.23	31.03.24	31.03.25	30.06.25
1.	कार्यशील पूँजी	34522.07	35520.25	37327.22	38267.11	37098.71	41213.10	42234.47

9. ऋण शेष :

(राशि लाखों में)

क्र.	विवरण	31.03.21	31.03.22	31.03.23	31.03.24	31.03.25	30.06.25
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अल्पकालीन कृषि ऋण	18983.79	18979.26	20023.62	19675.15	23067.69	24755.63
2.	अल्पकालीन अकृषि ऋण	2068.7	2097.58	2172.73	2138.05	2159.82	2688.53
3.	मध्यकालीन कृषि ऋण	3625.14	3593.3	3575.2	2574.02	1521.01	1339.88
4.	मध्यकालीन अकृषि ऋण	36.19	43.69	39.61	70.92	204.26	209.95
5.	दीर्घकालीन कृषि ऋण	4.6	4.8	6.19	3.90	3.90	3.90
6.	दीर्घकालीन अकृषि ऋण	271.75	271.81	268.62	232.47	231.69	231.69
	योग	24990.17	24990.44	26085.97	24694.51	27188.37	29229.58

10. कृषि ऋण वितरण :

(राशि लाखों में)

विवरण	लक्ष्य			पूर्ति			%
	नगद	वस्तु	योग	नगद	वस्तु	योग	
खरीफ ऋण (11.07.25)	2300.00	1100.00	3400.00	3475.79	266.91	3742.70	110.08%
वर्ष 2024-25	3090.00	1710.00	4800.00	3236.36	2488.60	5724.96	119.27%
रबी ऋण (31.03.25)	1890.00	810.00	2700.00	1062.33	1521.16	2583.49	95.68%
खरीफ ऋण (30.09.24)	1200.00	900.00	2100.00	2174.03	967.44	3141.47	149.69%
वर्ष 2023-24	2100.00	2300.00	4400.00	2224.53	1959.12	4183.65	95.08%
रबी ऋण	700.00	1400.00	2100.00	1141.10	1201.61	2342.71	111.56%
खरीफ ऋण	1400.00	900.00	2300.00	1083.43	757.51	1840.94	80.04%
वर्ष 2022-23	1224.32	1975.68	3200.00	1712.27	1858.97	3571.24	111.60%
खरीफ ऋण	950.00	950.00	1900.00	1125.84	709.21	1835.05	96.58%
रबी ऋण	274.32	1025.68	1300.00	586.43	1149.76	1736.19	133.55%
वर्ष 2021-22	800.00	1600.00	2400.00	1355.25	1515.81	2871.06	119.63%
खरीफ ऋण	400.00	500.00	900.00	1142.61	645.20	1787.81	198.65%
रबी ऋण	400.00	1100.00	1500.00	212.64	870.61	1083.25	72.22%

(राशि लाखों में)

गत वर्ष (दिनांक 05.07.2024) पर खरीफ ऋण वितरण -	1555.07	129.27	1684.34
--	---------	--------	---------



11. मांग वसूली :

(राशि लाखों में)

क्र.	विवरण	30.06.22	30.06.23	30.06.24	31.03.2025	30.06.25
1.	वर्ष की मांग	14893.04	15864.81	15237.76	16376.12	16376.12
2.	मांग के विरुद्ध वसूली	3312.57	6166.29	7164.32	5250.41	8373.55
3.	कुल वसूली का प्रतिशत	22.24 %	38.87 %	47.02%	32.06%	51.13%

12. एनपीए :

क्र.	विवरण	31.03.21	31.03.22	31.03.23	31.03.24	31.03.25	30.06.25
1.	NPA %	73.47 %	76.32 %	79.55 %	72.07 %	59.65 %	54.20 %

13. लाभ-हानि :

(राशि लाखों में)

क्र.	विवरण	31.03.21	31.03.22	31.03.23	31.03.24	31.03.25	30.06.25
1.	During the year Profit/ Loss	+69.29	-1389.14	-1482.55	+1296.64	+963.50	+682.56

14. संचित लाभ-हानि :

(राशि लाखों में)

क्र.	विवरण	31.03.21	31.03.22	31.03.23	31.03.24	31.03.25	30.06.25
1.	Accumulated Profit/ Loss	+800.46	-594.03	-2076.58	-792.65	+170.85	+853.41

15. सीआरएआर :

क्र.	विवरण	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2025
1.	CRAR	16.67 %	10.42 %	4.44 %	13.24 %	16.64 %

